

आईटी शेयरों के सामने नई मुश्किल

दो महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज, सॉफ्टवेयर फर्म इपैम के आय अनुमान में कटौती का असर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 6 जून

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों ने बिकवाली के नए दौर का सामना किया जब विकसित दुनिया में मांग में नरमी के माहौल ने निवेशकों को परेशान किया। इस बार चिंता अमेरिकी आईटी सेवा फर्म इपैम सिस्टम्स के कमजोर राजस्व अनुमान से शुरू हुई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 550 अंक यानी 1.9 फीसदी की गिरावट के साथ 18,689 पर बंद हुआ, जो 17 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी तुलना में निफ्टी-50 इंडेक्स 5 अंक चढ़ गया।

छोटे व मध्यम आकार वाली आईटी फर्मों परिसिस्टेड सिस्टम्स, कोफोर्ज व एम्प्रेसिस के शेयरों की कीमतों में करीब 4-4 फीसदी की गिरावट आई। इस बीच, अग्रणी फर्मों टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो में एक फीसदी से लेकर 1.8 फीसदी के बीच नरमी दर्ज हुई और ये चारों निफ्टी में गिरावट वाले चार अग्रणी शेयर रहे।

इपैम ने साल 2023 के लिए राजस्व में बढ़त के परिदृश्य में 5 फीसदी की कटौती की है। कंपनी को लगता है कि डिस्क्रीनरी खर्च में सुधार आने में दो से चार तिमाही लग सकते हैं। राजस्व अनुमान में कमी क्लाइंटों की तरफ से डिस्क्रीनरी खर्च से जुड़ी गतिविधियों में व्यापक आधार की नरमी और विभिन्न उद्योग वर्टिकल व इलाकों में राजस्व में गिरावट के अनुमान के आधार पर की गई है। साथ ही कीमत संवेदी बाजार में ज्यादा कीमत हासिल करने में अक्षमता का भी इसमें योगदान है।

विश्लेषकों ने कहा कि क्लाइंटों की तरफ से फैसले लेने में देरी और डिस्क्रीनरी खर्च से हाथ खींचने का असर भारतीय आईटी की बढ़त पर दिखेगा।

कोटक इस्टिंट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है, क्लाइंटों की तरफ से फैसला लेने में देरी और डिस्क्रीनरी खर्च में कमी का भारतीय आईटी सेवा को रफ्तार पर असर पड़ेगा। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष



आईटी शेयरों की चाल

- निफ्टी आईटी इंडेक्स **550** अंक यानी **1.9** फीसदी की गिरावट के साथ **18,689** पर बंद हुआ, जो **17** अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है
- छोटे व मध्यम आकार वाली आईटी फर्मों परिसिस्टेड सिस्टम्स, कोफोर्ज व एम्प्रेसिस के शेयरों की कीमतों में करीब **4-4** फीसदी की गिरावट आई
- अग्रणी फर्मों टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो में एक फीसदी से लेकर **1.8** फीसदी के बीच नरमी दर्ज हुई

24 की पहली तिमाही में विभिन्न कंपनियों का राजस्व वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के मुकाबले कमजोर रहेगा। हमारा यह भी मानना है कि खास तौर से वित्तीय सेवा व तकनीकी क्षेत्र में मांग का माहौल कमजोर है।

नोट में कहा गया है, कमजोर मांग को देखते हुए हम पिछले महीने हमारे कवरज वाले सभी शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी ने चौंकाया है। हमारा मानना है कि इन्फोसिस व एचसीएल टेक में बढ़ोतरी अभी भी मौजूद है लेकिन हम अन्य कंपनियों को लेकर चिंतित हैं।

निफ्टी आईटी इंडेक्स मई में 5.8 फीसदी चढ़ा था और सालाना नुकसान की उसने भरपाई कर ली थी। कैलेंडर वर्ष 2023 आईटी शेयरों के लिए झंझावात से भरा रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 16 फरवरी को साल के सर्वोच्च स्तर 31,434 पर पहुंचा था, जो 20 अप्रैल को घटकर 26,637 तक आ गया। यह बिकवाली इन्फोसिस के कमजोर नतीजों व

आय अनुमान के बाद शुरू हुई जब अमेरिका व यूरोप में बैंकिंग संकट चल रहा था। हालांकि आईटी शेयरों में खरीदारी की रुचि एक बार फिर तब देखने को मिली जब अमेरिका में नैसडेक इंडेक्स में तेजी आई। हालांकि इपैम की तरफ से पूरे साल के आय अनुमान में कटौती और राजस्व अनुमान में कमी लाने से परिदृश्य एक बार फिर धुंधला हो गया है।

इन्विन्विक्स के संस्थापक जी. चोकालिंगम ने कहा, आईटी क्षेत्र कुछ वर्षों से एक अंकों में बढ़ती दर्ज कर रहा है। अब यह बढ़त दबाव के घेरे में आ गया है। नियुक्ति का रिस्क स्तर पर पहुंचना इस दबाव को रेखांकित करता है। कम से कम कुछ तिमाहियों के लिए परिदृश्य नकारात्मक है।

कोटक इस्टिंट्यूशनल इक्विटीज के नोट में कहा गया है कि भारतीय आईटी क्षेत्र में डिस्क्रीनरी व रखरखाव खर्च के पोर्टफोलियो को लेकर ज्यादा संतुलन है।

सवाल जवाब

महंगे मल्टीपल का मुकाबला कर सकते हैं देसी बाजार

मॉर्गन स्टैनली ने प्रमुख सूचकांकों में ऊंचे स्तरों से बड़ी गिरावट के बावजूद पिछले कुछ महीनों में भारतीय इक्विटी बाजारों पर अपने नजरिये में बदलाव नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली में एशिया इक्विटी रणनीतिकार जोनाथन गार्नर ने पुनीत वाधवा के साथ मुंबई में हुई बातचीत में वैश्विक इक्विटी परिदृश्य और भारतीय बाजारों पर अपने नजरिये से अवगत कराया। पेशा हैं बातचीत के मुख्य अंश:



क्या आप मानते हैं कि वैश्विक इक्विटी बाजार जोखिम से जुड़ रहे हैं? मेरा मानना है कि एशिया और भारत समेत उभरते बाजारों में, हमारे पास ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो अमेरिका और यूरोप से काफी अलग हैं। एशिया में, हमने मुद्रास्फीति का इतना ज्यादा खतरा कभी नहीं देखा, जैसा कि अमेरिका और यूरोप में देखा गया है। साथ ही हमने मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की। भारत में, ताजा त्रैमासिक जीडीपी आंकड़ा काफी अच्छा था। वहीं अमेरिका में मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। एशिया में उभरते बाजारों में हम मजबूत वृद्धि, मुद्रास्फीति में नरमी, अच्छी आय की उम्मीद कर रहे हैं, जो शेयर बाजारों के लिए भी अनुकूल है।

आपने भारतीय इक्विटी के लिए रेटिंग 'ओवरवेट' नहीं की है। इसकी क्या वजह है?

हमने अक्टूबर 2022 में एशिया के संदर्भ में अपना नजरिया बदला था और कोरिया तथा ताइवान जैसे बाजारों में शुरूआती चक्रोयता आधारित बदलावों पर ध्यान दे रहे थे और तब चीन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि हाल के समय में चीन का प्रदर्शन कुछ हद तक निराशाजनक रहा है। लेकिन तब से कोरिया और ताइवान का प्रदर्शन सुधरा है। अक्टूबर 2022 में, हमने महंगे मूल्यांकन की वजह से भारत की रेटिंग अंडरवेट कर दी थी। तब से भारतीय बाजारों ने कोरिया के मुकाबले बड़ी मूल्यांकन वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2023 के अंत तक, भारतीय बाजारों का प्रदर्शन कमजोर था और इस वजह से मल्टीपल में कमी आई। भारतीय बाजार मजबूत जीडीपी वृद्धि, महंगाई में नरमी और आरबीआई द्वारा अगले 18-24 महीनों में ब्याज दरें घटाने की संभावना को देखते हुए कुछ हद तक महंगे मल्टीपल का मुकाबला कर सकते हैं।

दुनियाभर में कौन से इक्विटी बाजार अब लोकप्रिय नजर आ रहे हैं?

हमारे मुख्य पसंदीदा बाजार जापान है और हम कई वर्षों से जापानी इक्विटी बाजार पर आशान्वित बने हुए हैं। सभी ईएम के संदर्भ में हम कोरिया और

ताइवान को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भारत सभी उभरते बाजारों के अनुरूप प्रदर्शन करेगा। हमारा मानना है कि मौजूदा स्तरों से करीब 10 प्रतिशत की तेजी आ सकती है। हमारी भारतीय टीम के अनुमानों के अनुसार, संसेक्स का लक्ष्य 68,650 है।

भारतीय इक्विटी के संदर्भ में नजरिया इतना सुस्त क्यों है?

विदेशी निवेशकों के लिए, एशियाई क्षेत्र में जापान, कोरिया और ताइवान में खरीदारी करने का अच्छा अवसर है। ये तीन बड़े बाजार हैं। भारत ईएम ट्रेकर फंडों में सक्रिय प्रवाह में अपनी भागीदारी हासिल करेगा। हालांकि मैं नहीं मानता कि भारत में मूल्यांकन के संदर्भ में विपरीत नजरिया अपना अच्छा मौका है। मूल्यांकन काफी महंगा है।

भारतीय बाजार में प्रमुख थीम कौन से हैं?

आप भारत में कंज्यूमर डिस्क्रीनरी क्षेत्र पर दांव लगा सकते हैं। हमने कुछ समय से आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों पर कम ध्यान दिया है। कई निवेशक इस शुरूआती चरण के शहरीकरण और औद्योगिकीकरण पर दांव लगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और यह बाजार पर दांव लगाने का सही तरीका है।

क्या वित्तीय बाजार वैश्विक मंदी की चिंता से उबर चुके हैं? कब तक अमेरिकी फेड और आरबीआई दर वृद्धि पर विराम लगा सकते हैं?

अमेरिका में मुद्रास्फीति नरम पड़ रही है, लेकिन यह काफी धीरे धीरे नीचे आ रही है। ब्याज दरें कुछ समय तक 5 प्रतिशत से ऊपर बरकरार रहने का अनुमान है, और इससे अमेरिकी बाजार के ब्याज दर संवेदी क्षेत्रों पर पहले ही दबाव पड़ चुका है, जिनमें आवासीय एवं वाणिज्यिक रियल एस्टेट मुख्य रूप से शामिल है। हमें अमेरिका में कुछ क्षेत्रीय बैंकों को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि वृद्धि के लिए परिवेश काफी जोखिमपूर्ण लग रहा है।

टीसीएस ने दिया

सबसे ज्यादा लाभांश

पृष्ठ-1 का शेष

बहरहाल इस सूची के 10 शीप नामों में एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने भी जगह बनाई है। एचडीएफसी बैंक 10,601 करोड़ रुपये लाभांश भुगतान कर 8वें स्थान पर रहा। पिछले साल इसने 3,592.4 करोड़ रुपये लाभांश दिया था और 23वें नंबर पर था। स्टेट बैंक हालिया संपन्न वित्त वर्ष में 10,085 करोड़ रुपये लाभांश देकर 11वें से 10वें स्थान पर आ गया।

75th आज़ादी का अमृत महोत्सव
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना
बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरप्राइज क्लास स्टोर्ज सिस्टम की आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन और रखरखाव हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
इससे संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड में और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
"परिशिष्ट", यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड में प्रकाशित किया जाएगा। बोलीकर्ता प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 05 जुलाई, 2023 है।
स्थान: मुंबई
दिनांक: 07.06.2023 मुख्य महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005.
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पात्र और प्रतिष्ठित बोलीदाताओं/मूल उपकरण निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सीलबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली व कमर्शियल बोली) आमंत्रित करता है:
1. आरएफपी - 13-2023-24 - एंटरप्राइज-वाइड एंटीवायरस सॉल्यूशन की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, कॉन्फिगरेशन एवं रखरखाव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
2. आरएफपी-16-2023-24 - सैपटॉप्स की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, कॉन्फिगरेशन एवं रखरखाव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
यह जानकारी बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in> पर निविदा खंड में और जीईएम (GeM) पोर्टल अर्थात् <https://gem.gov.in> पर दिनांक 05.06.2023 से उपलब्ध होगी।
अनुशेष, यदि कोई हो, उपर्युक्त वॉर्निट वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
हस्ता/ -
दिनांक : 07.06.2023 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी

APPOINTMENTS

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट की लिमिटेड

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट की लिमिटेड (एनसीजीटीसी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है जिसे बडू ऋण गारंटी निधियों के लिए एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 28 मार्च 2014 को निगमित किया गया। एनसीजीटीसी निम्नलिखित पद हेतु (लंबी अवधि के लिए अनुबंध आधार पर) उपयुक्त पेशेवरों की भर्ती करना चाहता है।
1. प्रबंधक - जोखिम/परिचालन/विधि
2. सहायक प्रबंधक -आईटी/लेखा और अनुपालन
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.ncgtc.in पर जाएं। अगर कोई परिशिष्ट/शुद्धिपत्र हो तो उसे केवल एनसीजीटीसी की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार अंतिम आवेदन जमा करने से पहले इसे अवश्य देख लें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून, 2023 है।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
एसएम शाखा, प्रथम तल, 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 (फोन 011-40230166) ईमेल: armdbdelhi@indianbank.co.in
पारिशिष्ट- IV-ए" देखें नियम 8(6) प्रावधान।
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामक, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी इलाहाबाद बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) को बंधक/प्रभारित अधोलिखित अचल संपत्ति जिनका पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक), एसएम शाखा दिल्ली/प्रथम तल लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भीतिक कब्जा लिया गया है, कर्जदार, जमानतियों और बंधककर्ताओं द्वारा इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक), एसएम शाखा दिल्ली, प्रथम तल लेनदार को देर रु. 24,13,76,466/- (रुपये चौबीस करोड़ तेरह लाख इष्टतर हजार चार सौ छियासठ मात्र) (दिनांक 05.06.2023 तक) और वसूली तक ब्याज व अन्य व्ययों की वसूली के लिए "जो हैं, जहाँ हैं, जहाँ है जैसी हैं" और "जो भी हैं" आधार पर दिनांक 26.06.2023 को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और जमा की जाने वाली धरोहर राशि का विवरण क्रमशः नीचे दिया गया है। ई-नीलामी माध्यम से बिक्री के लिए रखी जाने के लिए इष्टित संपत्ति का विशिष्ट विवरण निम्नवत् है:

26.06.2023 को पूर्वा. 11.00 से अप. 4.00 तक सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत							
कर्जदार(ओं) के नाम	जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	व्यापकी रकम-गणना और सरकारी प्राधिकरणों आदि के भार, बकाया देय, यदि कोई हो, का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	न्यूनतम वृद्धि राशि	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
1. मेसर्स एच बालाजी टेम्पल (प्रा.) सुश्री मधु वाघवा सुश्री श्री गंधर्व लाल), 995, सेक्टर 16, फरीदाबाद, हरियाणा-129001	1. सुश्री मधु वाघवा, पुत्री श्री गंधर्व लाल), निवासी 2165, सेक्टर 49, सेनिक कालोनी, फरीदाबाद (बंधककर्ता और जमानती) 2. श्री डिलोक घोष, पुत्र स्व. श्री उत्तम चंद्र, 5ए/114, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा (बंधककर्ता और जमानती)	1. एनआईटी, फरीदाबाद में नेवरहुड नं. 1 पर बंगले प्लॉट नं. 27 व प्लॉट नं. 28 का भाग, बेसमेंट (दक्षिण साइड) माप 960 वर्ग फुट छत अधिकार रहित (सुपर एरिया 1200 वर्ग फुट) और सीमाएँ निम्नवत्- उत्तर- कॉमन रास्ता, दक्षिण- प्लॉट नं. 26, पूर्व- अन्य संपत्ति, परिधम- रोड	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 26.00 लाख	रु. 2.60 लाख	रु. 1,00,000/-	
2. सुश्री मधु वाघवा पुत्री श्री गंधर्व लाल), 995, सेक्टर 16, फरीदाबाद, हरियाणा-129001	1. सुश्री मधु वाघवा, पुत्री श्री गंधर्व लाल), निवासी 2165, सेक्टर 49, सेनिक कालोनी, फरीदाबाद (बंधककर्ता और जमानती) 2. श्री डिलोक घोष, पुत्र स्व. श्री उत्तम चंद्र, 5ए/114, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा (बंधककर्ता और जमानती) 3. श्री सुनाय वाघवा, पुत्र स्व. श्री भगवान दास, 995, सेक्टर 16, फरीदाबाद, हरियाणा-129001 (जमानती) 4. श्री रजनीकान्त श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश लाल श्रीवास्तव, 503, रॉयल ट्रीट चार्मडू, फरीदाबाद और 208, गुला पैलेस, राजीवी गाँव, नई दिल्ली (बंधककर्ता और जमानती)	2. एनआईटी, फरीदाबाद में नेवरहुड नं. 1 पर बंगले प्लॉट नं. 27 व प्लॉट नं. 28 का भाग, बेसमेंट (उत्तर परिधम में स्थित) माप 976 वर्ग फुट छत अधिकार रहित (सुपर एरिया 1281 वर्ग फुट) और सीमाएँ निम्नवत्- उत्तर- कॉमन रास्ता, दक्षिण- दुकान नं. एलजी-1ए, पूर्व- अन्य संपत्ति, परिधम- खुला	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 27.00 लाख	रु. 2.70 लाख	रु. 1,00,000/-	

ई-नीलामी की तिथि व समय- 26.06.2023 को पूर्वा. 11.00 से अप. 4.00 तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित वित्ताओं के साथ न्यूनतम बोली वृद्धि राशि ऊपर उल्लिखित है।
विस्तृत विवरण और निबन्धन व शर्तों के लिए कृपया संपर्क करें:
उप महाप्रबंधक, एसएम शाखा, प्रथम तल, 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 (फोन नं. 011-40230166, 9818966869 (सुश्री सोमी मेहरा, सहायक प्रबंधक), और 8397913078 (श्री आशीष चिंदत, मुख्य प्रबंधक) ई-मेल: armdbdelhi@indianbank.co.in
निविदाकारों को सलाह है कि ऑनलाइन बोली में भागीदारी के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमस्टेससीसी लि. की वेबसाइट (www.mssteccommerce.com) देखें। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमस्टेससीसी को हेल्पडेस्क नं. 033-22901004 और सेवा प्रदाता हेल्पडेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। एमस्टेससीसी लि. में पंजीकरण स्थिति के लिए कृपया ibapi@mssteccommerce.com पर संपर्क करें।
संपत्ति विवरण और संपत्ति के फोटो और नीलामी की निबन्धन व शर्तों के लिए कृपया <https://ibapi.in> देखें और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए कृपया हेल्पलाइन नंबर '18001025026' पर संपर्क करें।
निविदाकार कृपया वेबसाइट <https://ibapi.in> और www.mssteccommerce.com पर संपत्ति के लिए खोजें।
दिनांक: 05.06.2023, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

बीओआई G20
आज़ादी का अमृत महोत्सव
प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस -1, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में शेयरधारकों को संसूचना

बैंक के निदेशक मंडल ने शनिवार, 6 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रु. 10.00 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 2.00 (20%) प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। आगामी 27 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद पात्र सदस्यों को उक्त लाभांश का भुगतान किया जाएगा। बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश का भुगतान, आगामी एजीएम में अनुमोदित होने पर, रिक्त दिनांक अर्थात् 20.06.2023 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में बैंक के इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को किया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी।

टीडीएस की कटौती शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों पर निर्भर करेगी और आईटी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकार की जाएगी। तदनुसार, लागू टीडीएस, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे 20 जून 2023 को या उससे पहले investor.dividend@bankofindia.co.in को ईमेल द्वारा आवश्यक दस्तावेज/फॉर्म प्रस्तुत करें।

बैंक आरटीए के पास उपलब्ध रिक्त दिनांक के आधार पर टीडीएस काटने के लिए बाध्य है और उसके बाद टीडीएस रिटर्न के संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी रखने वाले सभी शेयरधारकों को एक ईमेल संदेश भी भेजा गया है, जिसमें विभिन्न फॉर्मों के साथ टीडीएस की कटौती के लिए लागू शर्तों का उल्लेख किया गया है।

कृते बैंक ऑफ इंडिया
हस्ताक्षर/-
(राजेश वी उपाध्या)
कंपनी सचिव
स्थान: मुंबई
दिनांक: 07/06/2023
बैंक ऑफ इंडिया
रिश्तों की जमापूत्री